



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2009 (श्रावण 24, 1931)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2009 (SRAVANA 24, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2009

नई दिल्ली-110 101, दिनांक 28 जुलाई 2009

सं. जी.एफ. 627/पीएमए(स्था.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत श्री अमित अग्रवाल, निदेशक को उक्त अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री कार्यालय के सभी मामलों में अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2. इसे दिनांक 01.11.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. आरएस/2744/स्था. (जी)--इस सचिवालय से सेवानिवृत्त किए जाने के उनके अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय में अवर सचिव, श्री बी. पी. थॉमस, जिन्हें इस सचिवालय में राज्य सभा के तत्कालीन विपक्ष के नेता (श्री जसवंत सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में संयुक्त निदेशक (पी.एस.एस.) के रूप में नियुक्त किया गया था, इस सेवा से 30 जून, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. बी. राय, निदेशक

दिनांक 29 जुलाई 2009

दिनांक 27 जुलाई 2009

सं. ए. 22012/1/2009/पीएमए (स्थापना)--प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक श्री आशीष गुप्ता, आई.पी.एस. (यूपी : 89) की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि 23.07.2011 तक बढ़ाई जाती है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. आरएस/3/1/2009/48-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों को 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के

साथ निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :-

1. श्री कुंवर पाल सिंह
2. श्री जगदीश कुमार
3. श्री रोहतास
4. श्री जगमोहन सुन्दरियाल

2. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वधीन होंगी।

सी. बी. राय, निदेशक

दिनांक 28 जुलाई 2009

सं. आरएस./42/2/2009/50-कार्मिक--सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में पूर्व मंत्री श्री महावीर प्रसाद के वैयक्तिक स्टाफ में अपर निजी सचिव के पद से कार्यमुक्त होने पर श्री माधो प्रसाद, अधिशासी अधिकारी ने 27 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया है।

सी. बी. राय, निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2009

सं. आरएस./1623/स्था. (सामान्य)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री नंदन सिंह, सुरक्षा अधिकारी 31 जुलाई, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. बी. राय, निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 2009

सं. ए-19011/1/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती लीला के. पोनप्पा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के कार्यकाल को संविदा आधार पर दिनांक 16.04.2009 से अगले तीन महीनों तक बढ़ाते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

सं. ए-19011/1/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती लीला के. पोनप्पा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के कार्यकाल को संविदा आधार पर दिनांक 16.07.2009 से अगले तीन महीनों तक बढ़ाते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

सं. ए-12011/6/2008. प्रशासन--राष्ट्रपति, डॉ. बिभू प्रसाद राउताराय के उप निदेशक के पद पर वेतन बैंड-3 के वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में दिनांक 21.07.2009 (पूर्वाह्न) को प्रारम्भिक तीन वर्ष की अवधि के लिए (जिसमें एक वर्ष की परीक्षा अवधि भी शामिल है), तत्पश्चात् आगामी दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. ए-12025/01/2009-प्रशा.-V--इस आयोग के दिनांक 9 जून, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत योजना आयोग में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने श्रीमती सुरिन्दर वधावन, नियमित वर्गिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक को दिनांक 9 जून, 2009 के पूर्वाह्न से योजना आयोग में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. ए-12025/22/2008. प्रशासन-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री ए. के. खुल्लर, नियमित उप सलाहकार (टेक्सटाईल्स), योजना आयोग को योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग) के पद पर नियमित प्रोन्नति के आधार पर पे बैंड-4 में वेतनमान 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/- में दिनांक 14 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2009

सं. एफ. 6 (2094)/2009-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/3/2009-आई.ई.एस. के तहत दिनांक 19.06.2009 के आदेश सं. टी-12/2009 का अनुपालन करते हुए आई.ई.एस. की जे.ए.जी. अधिकारी श्रीमती ए. श्रीजा ने दिनांक 20.07.2009 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में वेतन बैंड-3 अर्थात् रु. 15,600--39,100/- + रु. 7,600/- (रु. 12,000-325-16,500/- के संशोधन पूर्व वेतनमान) में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2009

सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1--मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 22 जुलाई, 2009 के आई.डी. नोट सं. ए-12031/01/04-एडी.-1 का अनुपालन करते हुए, श्री अरुण मझरा ने दिनांक 23 जुलाई, 2009

के पूर्वाह्न से योजना आयोग में सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. एफ. 6 (1900)/2004-प्रशा.-I--श्री बी. एन. नागेश माननीय योजना एवं संसदीय मामले राज्यमंत्री (श्री वी. नारायणसामी) के विशेष कार्य अधिकारी को कर्नाटक सरकार की अधिसूचना संख्या डीपीएआर 65 जीएएम 2009, दिनांक 19 जून, 2009 और 8 जुलाई, 2009 के अनुसार नई दिल्ली में कर्नाटक राज्य के अपर विशेष प्रतिनिधि, राज्य मंत्री के दर्जे पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए 23 जुलाई, 2009 पूर्वाह्न से योजना आयोग उनके कार्यभार से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई 2009

सं. 181/3/2008 (ग्रेड 'बी')--सक्षम प्राधिकारी श्री एम. एम. राघवन (अ. जा.) सहायक, जो भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, को एतद्वारा दिनांक 1.7.2009 से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेन्द्र ना. ब्रुटेलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2009

सं. ए-38012/3/2009-प्रशा.-IV (वि. का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री श्रवण कुमार, उप विधि सलाहकार, दिनांक 31 जुलाई 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2009

सं. 14031/1/2009-यू.टी.एस.-I--राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(2क) के अनुसरण में संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिज़ोरम-संघ-राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री उदय सहाय को 7 अगस्त, 2009 से स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करती है।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2009

सं. I-11014/3/2009-आईपीएस-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान सरकारों की सहमति से, श्री बरहट राहुल मनहर्दन, आई.पी.एस. (आंध्र प्रदेश : 2007) का विवाह सुश्री ममता बिश्नोई, आई.पी.एस. (राजस्थान : 2007) के साथ होने के आधार पर उन्हें एतद्वारा आंध्र प्रदेश के आई. पी.एस. संवर्ग से राजस्थान के आई.पी.एस. संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

राजेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2009

सं. 4/6/05-प्रशा.--इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अप्रैल, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, श्री एम. एस. सोझी को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में 12 फरवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से 5 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सलाहकार (परिवहन और संचार) नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलाई, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 2009

सं. ए-12026/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की सहायक निदेशक श्रीमती आर. के. नांगिया को दिनांक 17 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 15,600--39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये के वेतन बैंड-3 में तदर्थ आधार पर उप-निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. के. बजाज, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2009

सं. 50 : (फा. सं. ए-19012/11/2009-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री अजय गोयल, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 90) को दिनांक 13.07.2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग, में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2009

सं. 7 (फा. सं. 4/12/2007-एडो.-ई.डी.)--राष्ट्रपति, श्री संजीव भटनागर, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 25.5.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली में 10,000--15,200/- रुपये (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड-1 के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2009

सं./2009 (फा. सं. 26/3/2003 प्रशा. 1 ग)--डॉ. एस. एल. पीरन, सदस्य (न्यायिक) सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट), केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48क के अन्तर्गत 24.07.2007 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2009

सं. 02/2009 (फा. सं. ए. 32012/05/2009-प्रशा. 2 क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत श्रीमती के.ईदिरा, मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय, हैदराबाद-I की दिनांक 31.7.2009 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

सुषमा कटारिया, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2009

सं. 1/1/2004-एन.एस. I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप-निदेशकों को क्षेत्रीय निदेशक (कनिष्ठ) के पद पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 5,400/- रुपये (पीबी-3) के ग्रेड वेतन सहित उनके नाम के समक्ष अंकित दिनांक से पूर्णतः तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम व पदनाम	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री		
1.	बी. एस. मुक्कनवर, उप निदेशक	11.06.2009 (पूर्वाह्न)
2.	ए. विश्वास, उप निदेशक	10.06.2009 (पूर्वाह्न)
3.	डी. के. घाटे, उप निदेशक	10.06.2009 (पूर्वाह्न)
4.	आर. एन. मुखर्जी, उप निदेशक	10.06.2009 (पूर्वाह्न)
5.	बी. के. मल्होत्रा, उप निदेशक	09.06.2009 (पूर्वाह्न)
6.	पी. षडमुखम, उप निदेशक	22.06.2009 (पूर्वाह्न)
7.	एम. एल. गंगोर, उप निदेशक	10.06.2009 (पूर्वाह्न)
8.	जी. महतो, उप निदेशक	10.06.2009 (पूर्वाह्न)

उप-निदेशक की क्षेत्रीय निदेशक (कनिष्ठ) के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी :--

- (क) यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित-काल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (ख) इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

एम. ए. खान, अवर सचिव

सं. 1/1/2004-एन.एस. I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित क्षेत्रीय निदेशकों (कनिष्ठ) को राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर में क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ) के पद पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 6,600/- रुपये (पीबी-3) के ग्रेड वेतन सहित उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से पूर्णतः तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

1. बी. राजू बाबू, क्षेत्रीय निदेशक 11.06.2009 (पूर्वाह्न)
(कनिष्ठ)
2. बी. आर. रायगढ़, क्षेत्रीय निदेशक 11.06.2009 (पूर्वाह्न)
(कनिष्ठ)

उप-निदेशक की क्षेत्रीय निदेशक (कनिष्ठ) के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी :--

- (क) यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित-काल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (ख) इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

एम. ए. खान, अवर सचिव

सं. 1/1/2004-एन.एस. I--राष्ट्रपति, श्री मोर अजमत अली, क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ) को राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर में संयुक्त निदेशक के पद पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 7,600/- रुपये (पीबी-3) के ग्रेड वेतन सहित दिनांक 09.06.2009 की पूर्वाह्न से पूर्णतः तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

श्री मोर अजमत अली, क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ) की संयुक्त निदेशक के रूप में तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी :--

- (क) यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित-काल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (ख) इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

एम. ए. खान, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2009

फा. सं. ए. 32013/2/2008/एच आर डी-1/2886--राष्ट्रपति, विदेश व्यापार महानिदेशालय में रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3), ग्रेड पे-5,400/- के वेतनमान में निम्नलिखित सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार (भारतीय व्यापार सेवा ग्रेड-3) को पदोन्नति कर, उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित तारीख से नियमित आधार पर रुपये 15,600--39,100/- (पे बैंड-3), ग्रेड पे-6,600/- के वेतनमान में उप महानिदेशक विदेश व्यापार (भारतीय व्यापार सेवा ग्रेड-2) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं. अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
1. श्री एल. खारमावलॉग	1.5.2007
2. श्री ए. के. अरोड़ा	1.5.2007
3. श्री ए. एस. शिन्दे	1.5.2007
4. श्री पी. के. घोष	1.5.2007
5. श्री एस. एन. पुरकैत	1.5.2007
6. श्रीमती रीट माहना	1.5.2007
7. श्री आर. पी. मोना	1.5.2007
8. श्री राजबीर शर्मा	1.5.2007
9. श्री आर. सी. कालरा	1.5.2007
10. श्री डी. के. तोमर	1.5.2007
11. श्री सुभाष आर.	3.9.2006

2. श्रीमती रीट माहना, श्री राजबीर शर्मा, श्री आर. सी. कालरा और श्री डी. के. तोमर के संबंध में दिनांक 1.5.2007 से नोशनल आधार पर वेतन का निर्धारण होगा तथा कार्यालय आदेश सं. 20/2000 दिनांक 5.3.2009 में उल्लिखित नियुक्ति के स्थान पर उक्त पद का पदभार संभालने की तारीख से उन्हें वास्तविक लाभ मिलेगा।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. ए. 19011/03/1998-मा.सं. II--उर्वरक विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप श्री तपन दत्ता, सहायक आयुक्त (जहाजरानी), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय की परीक्षा अवधि दिनांक 03.05.2009 से संतोषजनक रूप से पूरी हुई है। उनकी परीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर उनकी सहायक आयुक्त के पद पर दिनांक 04.05.2000 से पुष्टि की जाती है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2009

सं. ए. 12011/09/2004-मा.सं. II--राष्ट्रपति, महोदया, श्री तपन दत्ता, सहायक आयुक्त (जहाजरानी), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क राजपत्रित, अननुसचिवीय को पदोन्नति द्वारा उर्वरक विभाग में तदर्थ आधार पर पीबी-3, 15,600--39,100/- में 7,600/- रुपये के ग्रेड पे सहित 28.07.2009 (पूर्वाह्न) से उपायुक्त (बंदरगाह, प्रचालन और परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त करती है।

यह तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए है या जब तक उपायुक्त, (बंदरगाह, प्रचालन और परियोजनाएं) के पद पर नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, नहीं हो जाती।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2009

सं. ए. 42011/01/2007-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/6/2008-सी. एस. I (डेस्क) दिनांक 20 मई, 2009 के अनुपालन में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री सुरेश कुमार की प्रतिनियुक्ति को जो कि असंगठित क्षेत्र में उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे, समय-समय पर संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/92-स्था. (वेतन 11) दिनांक 5.1.1994 के अंतर्गत दी गई शर्तों के अधधीन आयोग के कार्यों को समेटने के काम को पूरा करने के लिए 1.5.2009 से 31.5.2009 तक एक माह की अवधि के लिए बढ़ाई जाती है।

2. प्रतिनियुक्ति की विस्तारित अवधि के समाप्त होने के उपरान्त, श्री सुरेश कुमार को मंत्रालय अंतर्गत एम.सी.ई.यू.एस. में उनकी सेवा से मुक्त किया जाता है तथा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में अपने नए कार्य को ग्रहण करने के लिए, 1.6.2009 के पूर्वाह्न से उनकी सेवाओं को नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय को सौंपा जाता है।

पी. एस. वर्मा, उप सचिव

दिनांक 25 जून 2009

सं. ए. 18011/107/2009-स्था.--राष्ट्रपति, श्री घनश्याम भाई पटेल, फोरमैन, सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार को 1 जून, 2009 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) के संशोधित वेतनमान ग्रेड पे 6,600/- रु. में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के निजी कार्यालय में अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सु.ल.म.उ. के निजी कार्यालय में श्री घनश्याम भाई पटेल की नियुक्ति माननीय मंत्री के कार्यकाल पर्यन्त अथवा माननीय मंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में

अपने निजी कार्यालय में रखने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक है।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए. 12031/(01/)/2009-स्था.--राष्ट्रपति, सुश्री नीना सिंह पाण्डेय, भारतीय राजस्व सेवा (आईटी : 88) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिनांक 22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक नियुक्त करते हैं।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. ए. 12031/2/2009-स्था.--श्रीमती नन्दिनी वाई कापड़ी, भारतीय लेखा एवं लेखा-परीक्षा सेवा (77) को पदोन्नति का लाभ लेने के लिए उनके पैतृक संवर्ग अर्थात् नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय हेतु समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 17 जुलाई, 2009 के अपराह्न से खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वित्त सलाहकार के पद से कार्य मुक्त किया जाता है।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. ए. 18011/105/2009-स्था.- राष्ट्रपति, श्री कमल किशोर यादव, प्रवर श्रेणी लिपिक, सेना बल मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय को 1 जून, 2009 के पूर्वाह्न से 9,300--34,800/- (पीबी-2) के संशोधित वेतनमान ग्रेड पे 4,800/- रु. में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के निजी कार्यालय में सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सू.ल.म.उ. के निजी कार्यालय में श्री कमल किशोर यादव की नियुक्ति माननीय मंत्री के कार्यकाल पर्यन्त अथवा माननीय मंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपने निजी कार्यालय में रखने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक है।

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए. 18011/106/2009-स्था.--राष्ट्रपति, श्री राजेश शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, राज्य सभा सचिवालय को 1 जून, 2009 के पूर्वाह्न से 9,300--34,800/- (पीबी-2) के संशोधित वेतनमान ग्रेड पे 4,800/- रु. में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के निजी कार्यालय में सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सू.ल.म.उ. के निजी कार्यालय में श्री राजेश शर्मा की नियुक्ति माननीय मंत्री के कार्यकाल पर्यन्त अथवा माननीय मंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अपने निजी कार्यालय में रखने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक है।

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2009

सं. ए. 12025/09/2008-सी.एच.एस. III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. नैन सिंह को 7 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. ए. 12023/05/2008-स्था. III--इस मंत्रालय की दिनांक 6 फरवरी, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में श्री रमन प्रसाद को 7,600/- रुपए (12,000--16,500/- रुपए पूर्व संशोधित) के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान के पे-बैंड 3 में प्रोग्राम अधिकारी (श्रवण दृश्य) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को, 19.7.2009 से अगले छः माह की अवधि के लिए या एक नियमित व्यवस्था होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

सं. ए. 12023/05/2005-स्था. III--इस मंत्रालय की दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में श्री डी. पी. अबस्थी की 5,400/- रुपए (8,000-275-13,500/- रुपए पूर्व संशोधित) के ग्रेड वेतन के साथ 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान के पे-बैंड 3 में प्रोग्रामर के पद पर तदर्थ नियुक्ति को, 25.6.2009 से अगले छः माह की अवधि के लिए 25.12.2009 तक या एक नियमित व्यवस्था होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2009

सं. जैड. 28016/11/2008-एस एस एच--राष्ट्रपति, सैनिक इंजीनियरी सेवा, रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य

सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत एम्स सरीखे संस्थानों के परियोजना प्रकोष्ठ में प्रत्येक अधिकारी के नाम के आगे उल्लिखित तारीखों से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अधीक्षक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्य स्थल का नाम
1.	श्री कुंदन सिंह	09.07.2009 (पूर्वाह्न)	ऋषिकेश
2.	श्री संजीव गहलोत	13.07.2009 (पूर्वाह्न)	जोधपुर
3.	श्री आशुतोष मिश्रा	13.07.2009 (पूर्वाह्न)	भोपाल
4.	श्री मनोज बापना	13.07.2009 (पूर्वाह्न)	रायपुर
5.	श्री रत्नेश कुमार	15.07.2009 (अपराह्न)	पटना

2. ये अधिकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपनी नियुक्ति की तारीख से 17.7.2009 (अपराह्न) तक अस्थायी इयूटी पर तैनात रहेंगे, केवल क्रम सं. 5 को छोड़कर जो 24.07.2009 तक अस्थायी इयूटी पर रहेंगे। इसके पश्चात् ये अधिकारी अपनी नियुक्ति के स्थान पर जाएंगे और अपने सम्बन्धित कार्य स्थलों का कार्यभार तत्काल ग्रहण करेंगे।

3. अधीक्षक अभियंताओं के रूप में नियुक्ति होने पर, उनके पास पी बी-4 में 7,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपये के परिशोधित पे बैंड में वेतन आहरण करने अथवा मूल विभाग में अपने मौजूदा ग्रेड में अपना वेतन और यथा स्वीकृत प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरण करने का विकल्प होगा।

4. प्रतिनियुक्ति आधार वाले इन अधिकारियों के वेतन एवं सेवा की शर्तें समय-समय पर संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के कार्या. ज्ञा. संत्र 2/29/91-स्था. (वेतन-II) के अनुसार विनियमित होंगी।

5. इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते वर्ष 2009-10 हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए मांग सं. 46 के संबंध में बजट शीर्ष, 2210-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, 05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 41-एम्स सरीखे अति विशेषज्ञता वाले अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन, 0001-वेतन (योजनमय) के नामे डाले जाएंगे।

मनोज सिन्हा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2009

सं. 12034/5/2009-स्था.--राष्ट्रपति, श्री प्रवीण कुमार कक्कड़ को दिनांक 29.05.2009 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कान्ति लाल भूरिया) के निजी स्टाफ में पी बी-4 (37,400-67,000 + ग्रेड वेतन 8,700/- रु.) में पूर्णतः अस्थायी और को-टर्मिनस आधार पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जून 2009

सं. 41/6/2008-प्रशासन-IV--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ बेतार अधिकारियों को उनके सामने उल्लिखित तारीख से और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर 5,400/- रु. ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 इंजीनियर (वर्ग 'क' राजपत्रित) के रूप में नियुक्ति करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री		
1.	ए. आर. पोटभरे	09.06.2009
2.	इरशाद अहमद	09.06.2009
3.	अजय कुमार पांजा	09.06.2009
4.	एच. एस. सिद्दिकी	09.06.2009
5.	आर. सी. मलिक	09.06.2009
6.	के. बी. पॉलोस	09.06.2009
7.	एम. एल. शर्मा	09.06.2009
8.	ए. के. राय	09.06.2009
9.	पी. के. महेश्वरी	09.06.2009
10.	के. के. गोयल	09.06.2009
11.	जे. एस. गुप्ता	09.06.2009
12.	डी. दासगुप्ता	09.06.2009

निर्मला देव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. 3(3)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्रीमती कृष्णा बिदानी, स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर उपनिदेशक को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 1.7.2009 के पूर्वाह्न से 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 के संशोधित वेतन ढांचे में नियमित आधार पर उप निदेशक नियुक्त किया है।

2. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगी।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2009

सं. 4(559)/93-कार्मिक-I--श्री जे. एस. ओबेराय, उपनिदेशक (स्वस्थाने/वैयक्तिक) (कर्मचारी कोड सं. 278), सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त सचिव

सं. 4(393)/88-कार्मिक-I—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'एफ', श्री के. के. घोष (कर्मचारी कोड सं. 135) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त सचिव

सं. 4(456)/89-कार्मिक-I—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. ए. के. चक्रवर्ती (कर्मचारी कोड सं. 55) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, संयुक्त सचिव

डाक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2009

सं. 9-32/2009-एसपीजी--श्री बी. एल. अहिवार, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-I मध्य प्रदेश सर्किल को, 9,300—34,800/- रु. + 4,600/- रु. (ग्रेड वेतन) के पे बैंड में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (भर्ती), सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' राजपत्रित के पद पर, दिनांक 13.07.2009 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

2. पदोन्नति पर संबंधित अधिकारी को मध्य प्रदेश सर्किल में तैनात किया जाता है।

बी. पी. पंत, सहायक महा निदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2009

शुद्धि-पत्र

सं. 85/स्था. (राज. भ.)I/4/8-भाग--रेलवे बोर्ड की दिनांक 30.10.1986 की अधिसूचना सं. 85/स्था. (राज. भ.)I/4/8 की क्रम सं. 5 पर दिये गये नाम श्री सोचितो कुमार दास (Shri Sochitto Kumar Das, IRTS 1984 Batch) को श्री सुचितो कुमार दास (Shri Suchitto Kumar Das) पढ़ा जाए।

ममता कण्डवाल

उप निदेशक, स्था. (जी. आर.)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. 801/17/2008-एफ (सी)--चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 9 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37)

की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री के. नगराज, कें.स.से. के उप सचिव को प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 08.07.2009 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो, 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (पीबी-3) (15,600--39,100/-रु.) में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बेंगलूर का क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त करती है।

अमिताभ कुमार, निदेशक (फिल्म)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2009

सं. ए-12025/1/2008-लेखन सामग्री--राष्ट्रपति द्वारा श्री आर. के. राय, उप निरीक्षण नियंत्रक को भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में दिनांक 09.07.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक या नियमित आधार पर इस पद को भरे जाने तक जो भी पहले हो, पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये, ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये) में तदर्थ आधार पर लेखन सामग्री नियंत्रक नियुक्त किया जाता है।

पुष्पा जॉर्ज, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2009

सं. ए-12025/1/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सिविल विमानन के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक (तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत) श्री मोहन लाल को, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोट (पूरक सूची) के प्रति वर्ष 2005 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने पर 15 जुलाई, 2009 (पूर्वाह्न) से श्रम और रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख'/राजपत्रित) पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपये + ग्रेड पे 4,800/- रुपये) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारतीय संघ की सिविल रिट याचिका संख्या 13245-60/2005 एवं माननीय कैंट, नई दिल्ली में लंबित श्री सौराण्णु सिन्हा बनाम भारतीय संघ की ओए संख्या 1083/2007 एवं एमए संख्या 1171/2007 के परिणामों के अध्यधीन होगी। अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए सहायकों की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में सिविल रिट याचिका संख्या 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 28th July 2009

No. GF.627-PMA(Estt.)—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri Amit Agrawal, Director is designated as Appellate Authority in respect of all matters under the said Act pertaining to the Prime Minister's Office.

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 1.11.2007.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 29th July 2009

No. A.22012/1/2009-PMA(Estt.)—The Central Deputation tenure of Shri Ashish Gupta IPS (UP: 89) Director in the Prime Minister's Office is extended upto 23.07.2011.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd July 2009

No. RS/2744/Estt.(G)—Consequent upon the acceptance of his request to superannuate from this Secretariat, Shri B. P. Thomas, Under Secretary in the Ministry of Home Affairs, who was appointed in this Secretariat as Joint Director (PSS) in the personal staff of then Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Jaswant Singh), retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

C. B. RAI, Dir.

The 27th July 2009

No. RS/3/1/2009/48-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Joint Directors of the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director in the Pay Band-4 of Rs. 37400-67000+Grade Pay of Rs. 8700 plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 16th July, 2009, until further orders :—

1. Shri Kunwar Pal Singh
2. Shri Jagdish Kumar
3. Shri Rohtas
4. Shri Jagmohan Sundriyal

2. The above appointments would be subject to the order of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAI, Dir.

The 28th July 2009

No. RS/42/2/2009/50-Perl.—Consequent upon being relieved from the post of Additional Private Secretary in the

personal staff of Shri Mahabir Prasad, former Minister in the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Shri Madho Prasad, Executive Officer has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 27th July, 2009.

C. B. RAI, Dir.

The 31st July 2009

No. RS/1623/Estt.(G)—On attaining the age of superannuation, Shri Nandan Singh, Security Officer retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2009.

C. B. RAI, Dir.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th July 2009

No. A-19011/1/2007-Admn.—The President is pleased to extend the tenure of Ms. Leela K. Ponappa as Deputy National Security Adviser and Secretary, National Security Council Secretariat on contract basis for three months w.e.f. 16.4.2009.

P. K. ROY, Dy. Secy.

No. A-19011/1/2007-Admn.—The President is pleased to extend the tenure of Ms. Leela K. Ponappa as Deputy National Security Adviser and Secretary, National Security Council Secretariat on contract basis for three months w.e.f. 16.7.2009.

P. K. ROY, Dy. Secy.

No. A-12011/6/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Bibhu Prasad Routray as Deputy Director in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100/-+Grade Pay of Rs. 6600/- in the National Security Council Secretariat, on contract basis with effect from the forenoon of 21st July, 2009, initially for a tenure of three years (including one year probation) extendable by a further period of two years, or until further orders whichever is earlier.

P. K. ROY, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th July 2009

No. A-12025/01/2009-Admn.-V—Consequent upon her selection for promotion to the post of Assistant Library & Information Officer in the Planning Commission vide this Commission O.M. of even number dated 9th June, 2009 the President is pleased to appoint Smt. Surinder Wadhawan, a regular Senior Library & Information Assistant as Assistant Library & Information Officer in Planning Commission with effect from the forenoon of 9th June, 2009.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2009

No. A.12025/22/2008-Adm.I—Consequent upon the recommendation of UPSC, the President is pleased to appoint Shri A. K. Khullar, a regular Deputy Adviser (Textiles) in the Planning Commission as Joint Adviser (Village & Small Industries) in the Planning Commission in the Pay Band-4 Rs. 37400-67000+Grade Pay of Rs. 8700 on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 14th July, 2009 or until further orders.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 22nd July 2009

No. F.6(2094)/2009-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-12/2009 dated 19.06.2009 issued from their file No. 13016/3/2009-IES, Smt. A. Srija, JAG officer of IES has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in Pay Band 3 i.e. Rs. 15600-39100+Grade Pay Rs. 7600 [Rs. 12000-375-16500 (pre-revised)] w.e.f. 20.07.2009 (FN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 23rd July 2009

No. A-43011/23/2004-Adm.I—In pursuance of Cabinet Secretariat's I.D. Note No. A-12031/01/04-Ad.I dated 22nd July, 2009 Shri Arun Maira has assumed charge as Member, Planning Commission with effect from the forenoon of 23rd July, 2009.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. F.6(1900)/2004-Adm.I—Consequent upon his appointment as Additional Special Representative of Karnataka State at New Delhi with the status of Minister of State vide Government of Karnataka Notification No. DPAR 65 GAM 2009 dated 19th June, 2009 and 8th July, 2009, Shri B. N. Nagesh, Officer on Special Duty to Hon'ble Minister of State for Planning & Parliamentary Affairs (Shri V. Narayanasamy) is relieved of his duties in Planning Commission with effect from the forenoon of 23rd July, 2009 to take up his new assignment.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 30th July 2009

No. 181/3/2008/391 (Gr 'B')—The Competent Authority hereby appoints Shri M. M. Raghwan (SC) Assistant, officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the Secretariat of the Election Commission of India, as Section Officer on regular basis with effect from 01.07.2009.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 31st July 2009

No. A-38012/3/2009-Adm.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Sarwan Kumar, Deputy Legal Adviser, Department of Legal Affairs, retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st July 2009.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 28th July 2009

No. 14031/1/2009-UTS.I—The President is pleased to permit Shri Uday Sabay, an Indian Police Service Officer of 1988 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with effect from 7th August, 2009 in accordance with Rule 16(2A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rule, 1958.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 2009

No. 1-11014/3/2009-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Andhra Pradesh and Rajasthan, the Central Government hereby transfers Shri Barhat Rahul Manhardan, IPS (AP : 2007), from Andhra Pradesh to the IPS Cadre of Rajasthan on the ground of his marriage with Ms. Mamta Bishnoi, IPS (RJ : 2007).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 24th July 2009

No. 4/6/05-Admn.—In partial modification of this Ministry's Notification of even no. dated 25th April, 2008, the President is pleased to appoint Sh. M. S. Sodhi, as Adviser (Transport & Communication) on deputation basis for a period of 5(Five) years in the North Eastern Council Secretariat, with effect from the forenoon of 12th February, 2007.

ASHOLI CHALAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 3rd August 2009

No. A.12026/1/2006-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. R. K. Nangia, AD (OL) of the CSOLS Cadre as

Deputy Director (OL) on adhoc basis in the Department of Personnel and Training in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100+ Rs. 6600 (Grade Pay) with effect from the forenoon of 17th July 2009.

K. K. BAJAJ, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 22nd July 2009

No. 50 (F. No. A-19012/11/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Ajay Goyal, IRS (IT : 90) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 13.07.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2009

No. 7 (F. No. 4/12/2007-Ad.ED)—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Bhatnagar, an IRS Officer (C&CES) as Assistant Director, Grade-I in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 (pre-revised) in the office of Directorate of Enforcement at New Delhi under the Department of Revenue, on deputation basis for a period of three years w.e.f. 25.5.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

S. P. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 27th July 2009

No. 26/3/2003-Ad.IC—Dr. S. L. Peeran, Member (Judicial) Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) voluntarily retired from Government Service on 24.7.2009 (FN) under Rule 48A of CCS (Pension) Rules, 1972.

VICTOR JAMES, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

No. 02 of 2009 (F. No. A-32012/05/2009-Ad.IIA)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Smt. K. Indira, Chief Accounts Officer, Commissionerate of Central Excise & Service Tax, Hyderabad-I with effect from 31.07.2009 (FN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules 1972.

SUSHMA KATARIA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 28th July 2009

No. 1/1/2004 NS-I—The President is pleased to appoint the following Deputy Directors to the post of Regional Director (Junior) in the pay scale of Rs. 15600-39100 with

Grade Pay Rs. 5400 (PB-3) in the National Savings Institute, Nagpur with effect from the dates mentioned against their names, purely on ad-hoc basis for a period of one year, or until further orders, whichever is earlier :—

1.	B. S. Mukkanwar, Deputy Director	11.6.2009 (FN)
2.	A. Biswas, Deputy Director	10.6.2009 (AN)
3.	D. K. Ghate, Deputy Director	10.6.2009 (FN)
4.	R. N. Mukherjee, Deputy Director	10.6.2009 (FN)
5.	V. K. Malhotra, Deputy Director	09.6.2009 (FN)
6.	P. Shanmugum, Deputy Director	22.6.2009 (FN)
7.	M. L. Gangore, Deputy Director	10.6.2009 (FN)
8.	G. Mahato, Deputy Director	10.6.2009 (FN)

The ad-hoc appointment of Deputy Director as Regional Director (Junior) will be subject to the following terms and conditions :—

- The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority for regular promotion.
- Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

M. A. KHAN, Under Secy.

No. 1/1/2004 NS-I—The President is pleased to appoint the following Regional Director (Junior) to the post of Regional Director (Senior) in the pay scale of Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 6600 (PB-3) in the National Savings Institute, Nagpur with effect from the dates mentioned against their names, purely on ad-hoc basis for a period of one year, or until further orders, whichever is earlier :—

1.	B. Raju Babu, RD (Junior)	11.6.2009 (FN)
2.	B. R. Raigarh, RD (Junior)	11.6.2009 (FN)

The ad-hoc appointment of Deputy Director as Regional Director (Junior) will be subject to the following terms and conditions :—

- The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority for regular promotion.
- Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

M. A. KHAN, Under Secy.

No. 1/1/2004 NS-I—The President is pleased to appoint the Sh. Mir Azmat Ali, Regional Director (Senior) to the post of Joint Director in the pay scale of Rs. 15600-39100

with Grade Pay Rs. 7600 (PB-3) in the National Savings Institute, Nagpur with effect from the forenoon of 9.6.2009 purely on ad-hoc basis for a period of one year, or until further orders, whichever is earlier.

The ad-hoc appointment of Sh. Mir Azmat Ali. Regional Director as Regional Director (Senior) as Joint Director will be subject to the following terms and conditions :-

- (a) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority for regular promotion.
- (b) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

M. A. KHAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 29th July 2009

No. A-32013/2/2008/HRD-I/2886—The President is pleased to appoint the following Assistant Director General of Foreign Trade (Grade-III of Indian Trade Service) officers in the pay scale of Rs. 15,600-39,100/- (Pay Band-3), Grade Pay Rs. 5400/- in Directorate General of Foreign Trade on promotion, to the post of Deputy Director General of Foreign Trade (Grade-II of Indian Trade Service) in the pay scale of Rs. 15,600-39,100/- (Pay Band-3), Grade Pay Rs. 6600/- on regular basis with effect from the dates mentioned against their names :-

Sl. No.	Name of Officers	Date of promotion
1.	Shri L. Kharmawlong	1.5.2007
2.	Shri A. K. Arora	1.5.2007
3.	Shri A. S. Shinde	1.5.2007
4.	Shri P. K. Ghosh	1.5.2007
5.	Shri S. N. Purkait	1.5.2007
6.	Smt. Rita Mahna	1.5.2007
7.	Shri R. P. Meena	1.5.2007
8.	Shri Rajbir Sharma	1.5.2007
9.	Shri R. C. Kalra	1.5.2007
10.	Shri D. K. Tomar	1.5.2007
11.	Shri Subhash R.	3.9.2006

2. In respect of Smt. Rita Mahna, Shri Rajbir Sharma, Shri R. C. Kalra and Shri D. K. Tomar, the pay will be fixed on notional basis with effect from 1.5.2007 and the actual benefits will accrue from the date of their assumption of charge of the said post in the place of posting indicated in the Office Order No. 20/2009, dated 5.3.2009.

R. S. BISHT, Dy. Dir. Gen. of Foreign Trade

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 13th July 2009

No. A-19011/03-1998-HR.II—Consequent upon recommendations of the Departmental Promotion Committee of the Department of Fertilizers, the Probation period of Sh. Tapan Dutta, Assistant Commissioner (Shipping), General Central Services, Group-A Gazetted, Non-Ministerial is deemed to have been completed satisfactorily w.e.f. 03.05.2000. On his completing the probation period satisfactorily, he is confirmed in the Assistant Commissioner post w.e.f. 04.05.2000.

S. R. GHOSH, Under Secy.

The 28th July 2009

No. A-12011/09/2004-HR.II—The President is pleased to appoint Sh. Tapan Dutta, Assistant Commissioner (Shipping), General Central Services, Group-A Gazetted, Non-Ministerial as Deputy Commissioner (Port, Operation & Projects) in the Department of Fertilizers in the PB-3, Rs. 15600-39100 with Gr. Pay of Rs. 7600/- w.e.f. 28.07.2009 (F/N) on Ad-hoc basis by way of promotion.

The Ad-hoc appointment is for a period of one year or till a regular appointment is made to the post of Deputy Commissioner (Port, Operation & Projects) whichever is earlier.

S. R. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 28th May 2009

No. A-42011/01/2007-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M. No. 2/6/2008-CS.I (Desk) dated 20th May, 2009, the deputation of Shri Suresh Kumar, a permanent Section Officer of the CSS Cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on deputation as Under Secretary in the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS), is extended for a further period of one month with effect from 1.5.2009 to 31.5.2009, to accomplish the winding up work of the Commission, subject to the conditions stipulated under the DoPT's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay.II) dated 5.1.1994, as amended from time to time.

2. After expiry of the extended tenure of deputation, Shri Suresh Kumar is relieved of his duties from the NCEUS under this Ministry and his services are placed at the disposal of the Ministry of New & Renewable Energy with effect from the forenoon of 1.6.2009, to join his new assignment as Under Secretary on ad-hoc basis.

P. S. VERMA, Under Secy.

The 30th June 2009

No. A-18011/107/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ghanshyambhai Patel, Foreman, Roads and Buildings Department, Government of Gujarat as Additional Private Secretary in the personal establishment of Hon'ble Minister of State (IC) MSME (Shri Dinsha Patel) in the revised scale of pay of Rs. 15,600-39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/-, with effect from the forenoon of 1st June, 2009.

The appointment of Shri Ghanshyambhai Patel in the personal establishment of MOS (IC) MSME is on co-terminus basis with the tenure of the Hon'ble Minister or till the Minister desires to keep Shri Ghanshyambhai Patel in his personal establishment in the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises or until further orders, whichever is earlier.

P. S. VERMA, Under Secy.

The 6th July 2009

No. A-12031/(01)/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Neena Singh Pandey, IRS (IT:88) as Chief Vigilance Officer in the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Mumbai under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the afternoon of 22nd June, 2009 for a tenure of three years or until further orders, whichever is earlier.

P. S. VERMA, Under Secy.

The 15th July 2009

No. A-12031/2/2006-Estt.—Consequent upon approval of the competent authority for premature repatriation to her parent cadre i.e. Office of the C&AG to avail the benefit of promotion in her cadre, Smt. Nandini Y. Kapdi, IA&AS (77) is relieved of her duties from the post of Financial Adviser (FA), Khadi & Village Industries Commission (KVIC), Mumbai, with effect from the afternoon of 17th July, 2009.

P. S. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 25th June 2009

No. A-18011/105/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Kamal Kishore Yadav, UDC of Armed Forces HQ, Ministry of Defence, as Assistant Private Secretary in the personal establishment of Hon'ble Minister of State (IC) MSME (Shri Dinsha Patel) in the revised scale of pay of Rs. 9,300-34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from the forenoon of 1st June, 2009.

The appointment of Shri Kamal Kishore Yadav in the personal establishment of MOS (IC) MSME is on co-terminus basis with the tenure of the Hon'ble Minister or till the Minister desires to keep Shri Yadav in his personal establishment in the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises or until further orders, whichever is earlier.

M. L. SHARMA, Under Secy.

No. A-18011/106/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Sharma, Senior Clerk, Rajya Sabha Secretariat, as Assistant Private Secretary in the personal establishment of Hon'ble Minister of State (IC) MSME (Shri Dinsha Patel) in the revised scale of pay of Rs. 9,300-34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from the forenoon of 1st June, 2009.

The appointment of Shri Rajesh Sharma in the personal establishment of MOS (IC) MSME is on co-terminus basis with the tenure of the Hon'ble Minister or till the Minister desires to keep Shri Sharma in his personal establishment in the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises or until further orders, whichever is earlier.

M. L. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 31st July 2009

No. A. 12025/09/2008-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nain Singh to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 7th January, 2009, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th July 2009

No. A. 12023/05/2008-Estt.III—In continuation to this Ministry's notification of even number dated the 6th February, 2009, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri Raman Prasad in the post of Programme Officer (Audio Visual) in the Pay Band 3, bearing a pay scale of Rs. 15600—39100/- with a Grade Pay of Rs. 7600/- (Rs. 12000—16500 pre-revised) in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare for a further period of six months beyond 19.07.2009 on ad-hoc basis, or till a regular arrangement is made, whichever is earlier.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

No. A. 12023/03/2005-Estt.III—In continuation to this Ministry's notification of even number dated the 29th December, 2008, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri D. P. Awasthi in the post of Programmer in the Pay Band 3, bearing a pay scale of Rs. 15600-39100/- with a Grade Pay of Rs. 5400/- (pre-revised Rs. 8000-275-13500/-) in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare for a period of six months beyond 25.06.2009 and upto 25.12.2009 or till a regular arrangement is made, whichever is earlier.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2009

No. Z-28016/11/08-SSH—The President is pleased to appoint the following officers of the Military Engineering Services, Ministry of Defence to the post of Superintending Engineer on deputation basis in the Project Cell of AIIMS-like institutions under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) for a period of 3 years with effect from the dates mentioned against each officer, or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name	Date of appointment	Name of Site
1.	Shri Kundan Singh	09.7.2009 (FN)	Rishikesh
2.	Shri Sanjeev Gahlot	13.7.2009 (FN)	Jodhpur
3.	Shri Ashutosh Mishra	13.7.2009 (FN)	Bhopal
4.	Shri Manoj Bapna	13.7.2009 (FN)	Raipur
5.	Shri Ratnesh Kumar	15.7.2009 (AN)	Patna

2. These officers shall remain posted on temporary duty in the Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi from their date of appointment to 17.7.2009 (AN) except Sl. No. 5 who will be on temporary duty upto 24.7.2009. Thereafter, the officers will move to their place of posting and take the charge of their respective sites immediately.

3. On appointment as Superintending Engineers, they will have the option either to draw the pay in the revised Pay Band of Rs. 37400 - 67000/- plus Grade Pay of Rs. 8700/- in the PB-4 or draw their pay in their present grade in the parent department plus deputation (duty) allowance as admissible.

4. The pay and conditions of service of these officers on deputation basis will be regulated in terms of DoPT's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994, as amended from time to time.

5. The pay and allowances of these officers shall be debited to the Budget Head; 2210-Medical and Public Health; 05-Medical Education, Training & Research; 105-Allopathy; 41-Establishments of AIIMS Type Super Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions & Upgrading of State Govt. Hospitals; 0001-Salaries (Plan) in respect of Demand No. 46 for Department of Health & Family Welfare for the year 2009-10.

MANOJ SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th July 2009

No. 12034/5/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Kakkar as Officer on Special Duty (OSD) in PB-4 (Rs. 37,400-67,000/- + Grade Pay of Rs. 8700/-) in the personal staff of the Minister of Tribal Affairs (Shri Kanti Lal Bhuria) w.e.f. the forenoon of 29.05.2009 on purely temporary and co-terminus basis.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 23rd June 2009

No. 41/6/2008-Admn.IV—The President is pleased to appoint the following Junior Wireless Officers working in the Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organization, Department of Telecommunications as Engineers (Group "A" Gazetted) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- on regular basis with effect from the date(s) mentioned their names and until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	S:Shri	
1.	A. R. Potbhare	09.06.2009
2.	Irshad Ahmed	09.06.2009
3.	Ajoy Kumar Panja	09.06.2009
4.	H. S. Siddiqui	09.06.2009
5.	R. C. Malik	09.06.2009
6.	K. V. Paulose	09.06.2009
7.	M. L. Sharma	09.06.2009
8.	A. K. Roy	09.06.2009
9.	P. K. Maheswari	09.06.2009
10.	K. K. Goel	09.06.2009
11.	J. S. Gupta	09.06.2009
12.	D. Dasgupta	09.06.2009

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 17th July 2009

No. 3(3).2009-P.I.—The President is pleased to appoint Smt. Krishna Bidani, Deputy Director (in-situ/personal) on promotion as Deputy Director on regular basis in the Department of Information Technology in the revised structure of pay of Pay Band-3 i.e. Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 01.07.2009 (Forenoon).

2. She will be on probation for a period of two years with effect from the date of her appointment.

GIRISH SAHAJ, Jt. Dir.

The 31st July 2009

No. 4(559)/93-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri J. S. Oberoi, Deputy Director (in-situ/

personal) (E.Code 278), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service with effect from the afternoon of 31.07.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 4(393)/88-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri K. K. Ghosh, Scientist 'F' (Emp. Code No. 135) in the Department of Information Technology retires from service with effect from the afternoon of 31.07.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

No. 4(456)/89-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Dr. A. K. Chakravarti, Scientist 'G' (Emp. Code No. 55) in the Department of Information Technology will retire from service with effect from the afternoon of 31.07.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, the 23rd July 2009

No. 9-32/2009-SPG—Shri B. L. Ahirwar, Office Superintendent Grade I of Madhya Pradesh Circle is promoted to the post of Assistant Director (Recruitment), General Central Service Group 'B' Gazetted on regular basis in the pay band of Rs. 9300—34800/- + Rs. 4600 (Grade Pay) with effect from 13.07.2009 (F/N) and until further orders.

2. On his promotion, the officer is posted to Madhya Pradesh Circle.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd July 2009

CORRIGENDUM

No. 85/E(GR)/4/8/Pt.—The name of "Shri Sochitto Kumar Das" (IRTS—1984 batch) appearing at S.No. 5 in Railway Board's notification No. 85/E(GR)/4/8 dated 30.10.1986 may be corrected to be read as "Suchitto Kumar Das".

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th July 2009

No. 801/17/2008-F(C)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the

Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with Rule 9 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government is pleased to appoint Shri K. Nagaraja, Deputy Secretary of CSS as Regional Officer, Central Board of Film Certification, Bangalore in the PB-3 (Rs. 15600—39100/-) plus Grade Pay of Rs. 7600/- on deputation basis for a period of four years with effect from 08.07.2009 (AN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

AMITABH KUMAR, Dir. (Films)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 22nd July 2009

No. A-12025/1/2008-Sty.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Roy, Deputy Controller of Inspection, as Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office on ad-hoc basis in the Pay Band-3 (Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 7600/-) w.e.f. 09.07.2009 (Forenoon) until further orders or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

PUSHPA GEORGE, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 24th July 2009

No. A-12025/1/2005-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Mohan Lal, Assistant (officiating as Section Officer on ad hoc basis) of CSS Cadre of the Ministry of Civil Aviation as Section Officer (Group "B" Gazetted) on regular basis in the PB-2 (Rs. 9300-34800/- + Grade Pay of Rs. 4800/-) in the CSS Cadre of Ministry of Labour & Employment of inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota (Supplementary List) on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission, with effect from the 15th July, 2009 (FN).

2. The appointment of the above official to the grade of Section Officer of CSS Cadre shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in the Hon'ble Delhi High Court and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in the Hon'ble CAT, New Delhi. The seniority of the Assistants recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. The Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

PRADEEP GAUR, Under Secy.